



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 907) पटना, सोमवार, 17 अक्टूबर 2016

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर 2016

सं0 04/STA.-P3-381/2014 परि0-6122—सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अस्वस्थ रहने के कारण बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 67 (24) के आलोक में उप-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्तव्य के सम्पादन हेतु उनके अस्वस्थ रहने तक की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त में अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 907-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>